

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में थाना उत्तर पुलिस टीम ने अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, दो अभियुक्तों को 494 पेटी अंग्रेजी शराब (कीमत करीब 40 लाख रू) सहित किया गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में चलाये जा रहे शराब माफिया के चेकिंग अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर फिरोजाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर फिरोजाबाद के कुशल नेत्रत्व में थाना उत्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली जबकि IC/SSI नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना उत्तर, मय म0उ0नि0 अलबीना खान मय हमराह पुलिस के चेकिंग संदिग्ध वाहन व व्यक्ति में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक नं0 UP44T8952 बाईपास रोड से होकर रामगढ़ की तरफ जा रहा है, उक्त सूचना पर IC/SSI मय हमराह पुलिस बल के ककरऊ चौराहा से 100 मी0 आगे दौलतपुर की ओर बैरीयर डालकर चेकिंग करने लगे । कुछ देर बाद एक ट्रक नं0 UP44T8952 आता हुआ दिखायी दिया टार्च की रोशनी दिखाकर रोकने का प्रयास किया लेकिन ट्रक चालक ने जान से मारने नीयत से पुलिस वालों पर ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया एवं बैरीयरों को टक्कर मारकर तोड़ दिया । बैरीयरों पर गाड़ी चढ़ जाने के कारण गाड़ी आगे न जा सकी । IC/SSI मय हमराह पुलिस बल के अदम्य साहस का परिचय देते गाड़ी को रोककर अभि0गण 1. मख्खन सिंह पुत्र हरीनारायण नि0 ग्राम नागपुर थाना रतिया जिला फतेहाबाद, हरियाणा 2. बुद्धा सिंह पुत्र जयपाल सिंह नि0 रतिया थाना रतिया, जिला फतेहाबाद, हरियाणा को गिरफ्तार किया गया । गहनता से पूछताछ पर ट्रक में लदी हुयी 494 पेटी अंग्रेजी शराब नाजायज व कैटल फीड की फर्जी बिल्टी व ई-वेबिल और कैटल फीड के नकली बोरे बरामद हुये । अभि0गण के कब्जे से बरामद नाजायज अंग्रेजी शराब व फर्जी बिल्टी व ईवेबिल तथा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से ट्रक चढ़ाने के प्रयास करने के आधार पर मु0अ0सं0 414/20 धारा 420/467/468/471/307 भादवि व 60/72 आ0अधि0 बनाम मख्खन सिंह उपरोक्त आदि दो नफर के पंजीकृत किया गया है । अभि0गण कब्जे से बरामद शराब की बाजारू कीमत करीब 40लाख रुपये है ।

अभियुक्तगण का नाम पता—

1. मख्खन सिंह पुत्र हरीनारायण नि0 ग्राम नागपुर थाना रतिया जिला फतेहाबाद, हरियाणा
2. बुद्धा सिंह पुत्र जयपाल सिंह नि0 रतिया थाना रतिया, जिला फतेहाबाद, हरियाणा

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण –

- 1- मैक डबल नं01 – 101पेटी अंग्रेजी शराब
- 2-इम्पीयरल ब्लू – 393 पेटी अंग्रेजी शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. IC/SSI नरेन्द्र कुमार शर्मा, थाना उत्तर फिरोजाबाद ।
2. म0उ0नि0 अलबीना खान, थाना उत्तर फिरोजाबाद ।
3. हे0का0 86 अजय कुमार, थाना उत्तर, फिरोजाबाद ।
4. का0 842 नेत्रपाल, थाना उत्तर, फिरोजाबाद ।
5. का0 179 मोहनश्याम, थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद ।
6. का0 670 शुभम पटेल, थाना उत्तर, जिला फिरोजाबाद ।